



# VINAYAK POLYCON International Ltd.

CIN No. L25209RJ2009PLC030620

E-mail : [vinayak@vinayakpolycon.com](mailto:vinayak@vinayakpolycon.com)

[www.vinayakpolycon.com](http://www.vinayakpolycon.com)

## UNIT I

No. 16, Pandur Village,  
P.O. Kayarambedu, Via Guduvanchery,  
Distt. Kanchipuram-603 202,  
Tamil Nadu

## Regd. Office :

312, Navjeevan Complex,  
29, Station Road, Jaipur - 302 006  
Ph. : 2377007, 2378830

## UNIT II

H-13-14, Heerawala Ind. Area,  
Kanota, Jaipur-303012  
Rajasthan

To,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400 001 (Maharashtra)

VPIL/BSEL/2025-26/06112025  
Thursday, November 06, 2025

**Sub.:** Newspaper cutting of published Extract of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30<sup>th</sup> September, 2025

**Ref.:** Vinayak Polycon International Limited, Scrip Code: 534639

Dear Sir,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith the cuttings of newspaper of following newspapers in which the Extract of Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30<sup>th</sup> September, 2025 were published:

- 1.) Financial Express (English) dated 06<sup>th</sup> November, 2025
- 2.) Jansatta (Hindi) dated 06<sup>th</sup> November, 2025

This is for your information and record.

Thanking You,

For Vinayak Polycon International Limited

SHIKHA  
NATANI  
Digitally signed  
by SHIKHA  
NATANI  
Date: 2025.11.06  
12:06:21 +05'30'

Shikha Natani  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No.: 45901

Enclosed: as above




<b>VINAYAK POLYCON International Ltd.</b> Regd. Office : 312, Navjeevan Complex, 28, Station Road, Jaipur - 302006 • Ph. : 0141-2377007 Email: investor@vinayakpolycon.com, Website: www.vinayakpolycon.com CIN NO.: L25209RJ2005PLC030820 (Amount Rs. in Lakhs)				
Extract of the Standalone Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025				
S. No.	Particulars	3 months ended 30-09-2025 (Unaudited)	Half Year ended 30-09-2025 (Unaudited)	3 months ended 30-09-2024 (Unaudited)
1	Total Income from Operations (net)	507.37	1014.35	577.31
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items	5.99	11.18	8.21
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and /or Extraordinary items)	5.99	11.18	8.21
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.32	9.68	3.30
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)	4.32	9.68	3.30
6	Equity Share Capital	308.13	308.13	308.13
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the balance sheet of previous year	-	-	-
8	Earning per share (EPS) [of Rs. 10/- each] (for continuing and discontinued operations)	0.14	0.31	0.11
	1. Basic;	0.14	0.31	0.11
	2. Diluted;	0.14	0.31	0.11

Notes: (1) These Standalone Ind AS Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder. (2) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025 are available on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and website of the Company (www.vinayakpolycon.com).

Place: Jaipur  
Date: November 05, 2025

For and on behalf of the Board  
Sd/- Vikram Baid  
(Whole Time Director & Chief Financial Officer)



# INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LT

Regd. Office:- Plot-15, 6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-

**auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement Rules) 2002.** Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Co Borrower representative(s) that the below described immovable property(s) mortgaged/charged to India Shelter Finance Corporation Ltd. (hereinafter referred to as "India Shelter Finance Corporation Ltd.") and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement Rules) 2002, issued a demand notice below dated calling upon the below Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

**"Whatever there is" basis on the dates mentioned below for realization of the amount due to the Secured Creditors.** The sale will be by the Authorized Officer at the place mentioned below.

<b>Loan Account Number/AP Number And Name of Borrower(s) / Co-Borrower(s) /Guarantor(s)</b>	<b>Demand Notice u/s 13(2) Date &amp; Amount</b>	<b>Date and Type of Possession</b> <b>Symbolic Possession</b> <b>15-04-2025</b>	<b>Realization</b> <b>Rs. 1100010/-</b> <b>(Rupees Eleven Lakhs Ten Only)</b> <b>As of 11.07.2024</b>
<b>LA20VLL0 NS000005 065802 / AP-10152362 MR./MRS. SITA DEV &amp; MR. GOPAL</b>	<b>10-July-2024 And Rs. 1100010/- (Rupees Eleven Lakhs Ten Only) As of 11.07.2024</b> <b>Bid Increase Amount 10000/-</b>	<b>Total Outstanding As On Date</b> <b>11-July-2024 And Rs.</b> <b>1100010/- (Rupees Eleven</b> <b>Lakhs Ten Only) as of Further</b> <b>Interest Charge Effective From</b> <b>11.07.2024</b>	<b>Rupees Eight</b> <b>Hundred</b> <b>Twenty</b> <b>Thousand</b> <b>Only</b> <b>As of</b> <b>11.07.2024</b>


**Description Of The Immovable Property/ Secured Asset :** All that part and parcel of the property Gram & Gram Panchayat Bidiyad, Panchayat Samiti Parbatsar, Nagaur, Rajasthan 341542 BOUNDARY:-E Of Jagdish Sharma, South-House Of Ashok

**Place of EMD Deposition/Place of Auction:** 1st Floor, Shivam Complex, Dwidana Rd, opposite Hari On Mode Of Payment :- All payment shall be made by demand draft/RTGS/NEFT in favour of India Shelter Finance Corporation Ltd.

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the Secured Creditor's website www.indias Rana, M.7988605030 & Devendra Singh Dhe, Mobile No.9460733020 Date: 06.11.2025 Place: Rajstha

<b>P R HOLDINGS LIMITED</b> CIN : L27310DL1983PLC314402 Regd. Office : R-489, GF-C, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060 Tel: 011-42475489 Website: www.pholding.in Email: pholding1983@gmail.com			
<b>NOTICE</b> Pursuant to Listing Agreement(s) with MSEI Ltd. & CSE, Notice is given that Meeting(s) of Audi Committee & Board of Directors is scheduled to be held on FRIDAY - 14.11.2025 at 12:30 & 01:30 P.M. at its Regd. Office inter-alia to consider, approve & adopt UN-AUDITED QUARTERLY & HALF-YEARLY FINANCIAL RESULTS of Quarter ended 30.09.2025 & Limited Review Report Trading Window in equity shares will remain closed from 01.10.2025 to 20.11.2025 for all insiders and any other matter with the permission of Chair.			
New Delhi 03.11.2025 SAKSHI GUPTA WTD & CFO DIN: 09773654 Members are requested to Update their Contact details, address, PAN, Email id, etc for your Company's updates, announcements, correspondence, etc.			

<b>VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD</b> Unit 203 & 204, 2nd Floor, "A" Wing, Navbharat Estate, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400015, Maharashtra. CIN No.: U65922MH2005PLC272501		
Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002		
Whereas, Vastu Housing Finance Corporation Ltd through its head office Mumbai, Notice issued to the following borrowers / guarantors / mortgagors have defaulted in the repayment of principal and payment of interest of credit facilities obtained by them from the VHFC and said facilities have turned to be Non Performing Assets. The notices were issued to them under section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on their last known addresses however the same have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice about the same.		
Name of Borrower, Co-borrower and Loan A/c No.	Date and Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged property
PETER GOMES (Applicant), sandhya gomes (Co Borrower), rajesh gomes (Co Borrower), SHEENA GOMES (Co Borrower)	14-Oct-25/ Rs.2504224 as on 9-Oct-25 with further interest and charges thereon	Property No-1093/46b, Third Floor, Front side portion with roof rights, khasra No. 1151/3 Ward No. 1, St. John Church, Church Complex, Village Mehrauli, New Delhi - 110030. North- Other Property, South - Gali 15 ft. wide, East- Other Property, West- Other Property
HL0000000009728		
Rajender Prasad Vashisth (Applicant), Ashish Vashisth (Co Borrower), Sunita Sharma (Co Borrower)	11-Oct-25/ Rs.3093926 as on 9-Oct-25 & Rs.1824196 as on 10-Oct-25 with further interest and charges thereon	ALL THAT BUILT-UP PROPERTY BEARING NO. 38 & 38-A, AREA MEASURING 87.5 SQ. YDS., I.E. 73.15875 SQ. MTRS., OUT OF KHASRA NO. 498, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE ROSHAN PURA, DELHI STATE DELHI, ABADI KNOWN AS OLD ROSHAN PURA EXTENSION, BBLOCK, NAJAFGARH, NEW DELHI-110043. North- PORTION OF PLOT NO. 39, South - PLOT NO. 38, East - ROAD 25 FT., West- GALI
HL0000000119797 & LP0000000209434		
The steps are being taken for substituted service of notice. The above borrowers, co- borrowers and/or their guarantors (where ever applicable) are advised to make the payments of outstanding within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice as per the provision of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.		
Please be informed that the said notice is also under section 13(13) informing the borrowers/guarantors/ mortgagors that the said mortgaged property should not be sold/leased/transferred.		
Date : 06.11.2025 Place : New Delhi		
Authorized Officer, VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD		

	<div><b>GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED</b> (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Ltd.) <b>Registered Office:</b> 6th floor , B-Building ,Ganga Trueno business park, Lohegaon, Pune -411014.</div>	<div><b>APPENDIX IV (See Rule 8(1))</b> <b>POSSESSION NOTICE</b> (For Immovable Property)</div>
<p>Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of <b>Grihumb Housing Finance Limited</b> (formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited) as the name <b>Poonawalla Housing Finance Limited</b> changed to <b>Grihumb Housing Finance Limited</b> with effect from 17 Nov 2023 (Previously known as Magma Housing Finance Limited and originally incorporated with name of GE Money Housing Finance Public Limited Company) herein after referred as Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice below dated calling upon the below Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within <b>60 days</b> from the date of receipt of the said notice.</p> <p>The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this <b>31st Day of October of the 2025</b>.</p> <p>The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of secured Creditor the amount and interest thereon.</p> <p>The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Details of Property taken in possession are herein below.</p>		

<b>Satin Housing Finance Ltd.</b> Corporate Office: Plot no 492, Udhog Vihar, Phase -3 Gurugram Haryana-122016, Registered Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033		THE ANSWER IS HOME
SATIN HOUSING FINANCE LIMITED		DEMAND NOTICE
<b>UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH RULE 3 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.</b> Under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The undersigned is the Authorized Officer of Satin Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued Demand Notices dated 16.10.2025 under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s) (the "said Borrower(s)") to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below. In connection with above, Notice is hereby given, once again to the said Borrower(s) to pay the due amount mentioned in the notice dated 16.10.2025 under section 13(2), within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the loan agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to Satin Housing Finance Limited by the said Borrower(s) respectively.		<b>Demand Notice Date</b> Demand Notice Amount 16.10.2025 Rs. 32,96,118+/- Rs. 11,43,732 = Rs. 44,39,850/- (Rupees Forty Four Lakh Thirty Nine Thousand Eight Hundred Fifty Only) As on 16.10.2025
<b>Description Of Secured Asset (Immovable Property):-</b> A Residential Flat On Entire Second Floor, Area Measuring 900 Sq. Ft., Built On Plot No D-15, Area Measuring 209.44 Sq. Yds. Part Of Ract No. 28, Killa No. 10 & 11 Min. Situated In The Residential Colony Known As Ashoka Enclave Extn. No. 1, Faridabad, Situated In The Revenue Estate Of Village Palla, Teh & Distt Faridabad. Bounded As Under: East: Plot No. D-9, West: Road, North: Plot No. D-16, South Plot No. D-14. Registered On: 12.04.2017, Deed No. 342, Book No. 01, Pg. No. 92		
If the said Borrowers shall fail to make payment to Satin Housing Finance Limited as aforesaid, Satin Housing Finance Limited shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the aforesaid assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of Satin Housing Finance Limited. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.		
PLACE: GURUGRAM, DATE: 06.11.2025		Sd/-, Authorized Officer SATIN HOUSING FINANCE LIMITED

<b>CAD-2184</b> <b>ODISHA MINING CORP</b> (A GOLD CATEG (A Government of O	
<b>REQUEST FOR PROPOSAL FOR SELECTION OF MINE OI BAUXITE MINE IN THE DISTRICT OF KORAPUT (RIP No. 193/OMC/P&amp;T/2025 dated 05</b>	
Odisha Mining Corporation Limited (OMC) invites bids/ proposals from experi machineries for excavation/ raising of Bauxite Ore by required works connected v limited to the following activities such as transportation of ROM to crushing and Operator, crushing and/or screening of ROM to obtain finished product of sp Subgrade/Mineral Rejects to specified yards after necessary weightment, cleaning of incidental waste and associated rejects/ spoils/ spurious materials for concurrent bac Subgrade/Mineral Rejects onto buyers trucks at Kodingamali Bauxite Mine as desc	
<b>Peak Rated Target: 35,00,000 MT</b> <b>Period of Contract: 5+3 years</b> <b>Last Date of Submission of Bid: 05:00 PM on 25.11.2025</b> <b>Bid Document Cost: INR 1,18,000/- (Rupees One Lakh Eighteen Thousand) only</b> The executive summary of the Bidding Process has been upl	



